

DR. FRESH ASSETS LIMITED

(Formerly known as Sunehari Exports Limited)

Regd. Off.: B-1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044

Phone: 91-11-41679238 Fax: 91-11-26940969

E-mail: sunehari@sunehari.com website: www.drfreshassets.com CIN: L74899DL1990PLC042302

08th September, 2023

To, Metropolitan Stock Exchange of India LimitedBuilding A, Unit-205(A), 2nd floor,
Piramal Agastya Corporate Park,
Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West),
Mumbai – 400 070

Ref: Symbol: DRFRESH

Sub: Publication copy of Notice Published in Newspaper

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III (Part A) to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of notice published in Financial Express Newspaper in the English language and Jansatta Newspaper in regional language on Wednesday, September 6, 2023, giving information regarding 33rd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing /Other Audio Visual Means in accordance with the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

Please take the above information on record.

Yours faithfully, For Dr. Fresh Assets Ltd

Vijay Prakash representation of the control of the

Vijay Prakash Pathak Whole Time Director DIN: 07081958

Encl: a/a

"FORM NO. NCLT. 3A" [see rule 35]

Company Petition No. 69/ALD/2023 NOTICE OF PETITION

MODI SPINNING & A petition under Section 131 of the Companies Act, 2013, for revision of financial statement along with the Board Report was presented by Virola Shoes Private Limited having it registered office at 21/68, Freegani, Agra, Uttar Pradesh- 282004, India on the 29th day of August, 2023 and the said petition is fixed for hearing before Allahabad bench, Prayagraj of National Company Law Tribunal on 22:09:2023. Any person desirous of Notice is hereby given pursuant to supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the Petitioner's advocate not later than 'two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be 2023. furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same,

Dated: 04.09.2023

05.09.2023 Nikhil Kumar Verma Advocate for the Petitioner Place: VKC Legal, D-38, LGF (L/S), South Modinagar Extension Part-II, New Delhi-110049

WEAVING MILLS CO. LTD. Regd. Office: Modinagar-201201 (U.P.) CIN No. U17111UP1946PLC001428 E-MAIL ID: mswmcoltd@gmail.com

NOTICE

section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 27th September, 2023 to 28th September,

By order of the Board For Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd. Rajendra Sharma

Dy. Company Secretary

RANJAN POLYSTERS LIMITED Regd. Office: 11-12 KM. Stone, Chittorgarh Road, Village-Guwardi, Bhilwara-311001(Raj.) Phone: 01482-297132. CIN: L24302RJ1990PLC005560:

Dated:

E-Mail:- ranjanpoly@gmail.com,ranjanpoyster@yahoo.com NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 30th Day of September, 2023 at 4:00 P.M at the registered office of the Company at 11-12 KM. Stone, Chittorgarh Road, Village- Guwardi

Bhilwara-311001(Raj.) In accordance with, the General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by Ministry of corporate affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by SEBI, the Notice of 33rd Annual General Meeting and detailed instructions and information relating to e-voting, together with Annual Report of the company for the Financial Year 2022-2023 has been e-mailed to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company/RTA/Depositories. The dispatch of the Annual Report together with the Notice of the AGM only through electronic Mode has been completed on 05th September, 2023. Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the company i.e. ranjanpolysters.com and from the website of stock exchange www.msei.in

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company has provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in Notice of 33rd Annual General Meeting through evoting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 27th September, 2023 at 9.00 A.M. and will end on Friday, 29th September, 2023 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

Any person who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of notice may obtain the user ID and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agents, M/s. Beetal Financial & Computer Services Private Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, BH-Local Shopping Complex. Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on CDSL's website www.cdslindia.com. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General

Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper. The result of e-voting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange.

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available a www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013

and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 25, 2023 to Saturday, September 30, 2023 By the order of the Board (both days inclusive).

Mahesh Kumar Bhimsariya Date: 5th September, 2023 Managing Director DIN No. 00131930

Place: Bhilwara

Octavius Plantations Limited

CIN: L65910DL1984PLC018466 Regd. Off:- E-40/3, OKHLA INDUSTRIAL AREA. PHASE-2 NEW DELHI - 110020

Phone:- 011-45542200 Email id:- csdelhi@cctavius.in Website:- www.octaviusplantations.com NOTICE OF THE 39th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND **BOOK CLOSURE**

- Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of members of the company will be held on Thursday, September 28, 2023 at 11.00 A.M (IST) at registered office of the company though Video Conferencing (VC) /Other Audio Video Means (OAVM) to transact the business set out in the notice which has already been sent to the shareholders for convening the Annual General Meeting. In continuation of the ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circulars No. 02/2020 dated 05.05.2020 read with General Circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 in relation to clarification on holding Annual General Meeting (AGM through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OVAM), (MCA Circulars) the Ministry has permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OVAN without the physical presence of members at a common venue. In compliance with these MCA circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (the Regulations) AGM of Members of the company will be held through VC/ OAVM. In Compliance with the relevant circulars, the notice of AGM and the Annual Report 2022-23
- including the standalone Financial Statements for the Financial year 2022-23, along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the members of the Company whose email address is registered with the company/ DP(s). The aforesaid documents will also be available on the company's website www.octaviusplantations.com and on the website of the stock Exchange BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of company's RTA, M/s Abhipra Capital Limited at https://www.abhipra.com Notice pursuant to section 91 of the companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of the
- SEBI (Listing Obligation and Disclosure requirements) Regulation 2015 is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company shall remain closed from Friday 22.09.2023 to Thursday 28.09.2023, (both days inclusive) for the

Manner of registering/ updating email addresses for obtaining Notice of AGM, Annua Report 2022-23 and/ or login credential for joining the AGM through VC/ OAVM including

Annual report, Notice of AGM and e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily get their email address and mobile number registered with Abhipra Capital Limited, by accessing theire mail rta@abhipra.com or call them at :- Tel : -1-11-42390909 Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions Alternatively, members may send an e-mail request at the email id csdelhi@octavius.in

Members who have not registered their email address and in consequences the

- along with scanned copy of the signed request letter providing the e-mail address, nobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate in case of physic folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.
- In order to enable the company to comply with MCA circulars and to participate in the green initiative in corporate governance, members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their DP(s) permanently for sending the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions. Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM.
- a) Members can cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM through electronic voting system (e-voting)
- b) The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses in providing in the notice of AGM. c) The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending
- the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote a
- d) The login credential for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the company/ RTA/ DP(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to notice of AGM.
- e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through
- Electronic copies of the notice of the 39th AGM and the annual report of the Company for the financial year 2022-23 will be sent to all the members whose email ids are registered with the Company/ Depository participant(s). The notice of the 39th AGM and the annual report for the financial year 2022-23 is also available on the company's website www.octaviusplantations.com.
- Members holding shares either in physical form or in demateralised form, as on the cutoff date of 21st September, 2023, may cast their vote electronically on the ordinary or/ and
- Special Business (es) as set out in the notice of the 39th AGM through electronic voting system of M/s Abhipra Capital Limited. The Members are informed that
- a) The electronic transmission of Annual report, Notice of 39th AGM and other documents will have completed by 5th September, 2023.
- b) The company is availing the services of M/s Abhipra Capital Limited for facilitating the E-voting facility to it members. E-voting shall commence on Monday, 25th
- September, 2023 at 9 am and ends on Wednesday 27th September, 2023 at 5 pm the voting shall be disabled after 5:00 p.m. on 27th September 2023 d) The notice of the 39th AGM is available on the Company's website
- www.octaviusplantations.com and Abhipra Capital Limited. website https://abhipra.com Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42
- of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books for Equity shares of the company will remain closed from Friday 22nd September 2023 to Thursday 28th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For and on behalf of the Board of

Octavius Plantations Limited Raj Kumar Jain

Director Din: 03505168 Date: September 5, 2023

Place: New Delhi

CIN: L27109DL1972PLC319974

PRADYUMNA STEELS LIMITED

Regd. Office: Flat No. 702, 7th Floor, Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi -110001 Phone: +91 11 23310001-05, Email: hcslndl@yahoo.co.in, Website: www.psteelltd.com

NOTICE OF THE 50TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 50" Annual General Meeting (AGM) of the

members of Pradyumna Steels Limited is scheduled to be held on Saturday, 30" September, 2023 at 10:00 A.M. at the Registered office of the Company at Flat No 702, 7" Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001 to transact the business as mentioned in the Notice which has been sent to the members.

Electronic Copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been sent to all members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Company is providing remote e-voting facility to its members to cast

their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("Remote e-voting") and all the members are informed that:

- . The Business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- 2. The Dispatch of the Notice of the AGM has been completed on 05.09.2023
- The Remote e-voting shall commence on 27.09.2023 at 9:00 A.M.
- The Remote e-voting shall end on 29.09.2023 at 5:00 P.M.
- E-Voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on 29.09.2023. The Notice of AGM and Integrated Annual Report for the financial
- year 2022-23 is also uploaded on website of the Company at www.psteelltd.com and shall also be available on the website of the Calcutta Stock Exchange Limited (CSE) at www.cse-india.com. 7. In case of any gueries related to e-voting, members may contact to
- NSDL, for contact details refer the website of NSDL or contact Company's RTA Skyline Financial Services Limited, email: compliance@skylinerta.com.
- Cut-off Date fixed for the purpose of ascertaining the eligibility of the
- members for e-voting is 23.09.2023. 9. The Register of members and Share Transfer Book shall remain closed from 24.09.2023 to 30.09.2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For Pradyumna Steels Limited

(M.L. Birmiwala)

Director

Place: New Delhi

Date: 06.09.2023

Date: 05.09.2023 Place: Bhopal

> VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED CIN: L67120DL1993PLC052256

Regd. Office: 103, Palco House, 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 E-mail:csvirtualeducation@gmail.com; Website: www.virtualeducation.in, Phone: 011-41522143

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of Virtual Global Education Limited (the Company) is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 01:00 P.M at Maharaja Banquets, A-1/20A, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The Notice of AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2023 and remote e-voting

details have been sent in electronic mode to all the members whose email ID are registered with the Company/RTA/Depository Participants. The date of completion of email of the notices to the Shareholders is 05th September, 2023. In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below instructions to

register your email ID for obtaining annual report for FY 2022-23 and login details for e-voting: Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services (P) Ltd. at *Info@skylinerta.com* providing folio number, name of the shareholder,

scanned copy of the share certificate (Front and Back). PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address. Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised DP These documents are also available on Company's website **www.virualeducation.in** for download

by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Security Depository Limited (NSDL) through their portal www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically.

The remote e-voting period commences on Sunday, September 24, 2023 (09:00 am) and ends on Tuesday, September 26, 2023 (05:00 pm). No E-Voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, September 21, 2023, may cast their vote by remote E-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut of date i.e. Thursday, September 21, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to RTA Skyline Financial Services (P) Ltd at *Info@skylinerta.com*, However, if the members are already registered with NSDL 'or remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Apoorv Srivastava, Practicing Company Secretary (Membership No, FCS 12734 & CP No, 21063), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to E-voting may be addressed to Ms. Shivani Jindal, Company Secretary, Virtual Global Education Limited, 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 at Email: csvirtualeducation@gmail.com

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the September 20, 2023 to Wednesday, the September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

For and on Behalf of Virtual Global Education Limited

Shivani Jindal

Date: 05.09.2023 Place: Delhi

Company Secretary & Compliance Officer



B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

(CIN: L74899DL1989PLC036148) Regd. Off.: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi – 110025

Ph: 011-40500300, 011-43058345, fax: 011-40500333

Email: info@blkashyap.com; Website: www.blkashyap.com NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING.

BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that 34th Annual General Meeting (AGM) of "the Company" will be held on Saturday, September 30, 2023 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the Ordinary and Special Business as given in the Notice of AGM. The Notice of AGM and Annual Report 2022-23 has been sent only in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The dispatch of Notice of AGM and Annual Report through e-mails has been completed on Tuesday, September 05, 2023. Notice of AGM and Annual Report 2022-23 are also available on the website of the Company at www.blkashyap.com, website of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. September 23, 2023 may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM through e-voting systems of NSDL (remote e-voting).

All the members are hereby informed that:

- a) The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- b) The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 27, 2023 at 9:00 a.m. and ends on Friday, September 29, 2023 at 5:00 p.m.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or voting at the AGM is Saturday, September 23, 2023.
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5:00 p.m. on
- September 29, 2023. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also
- attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Only those persons whose names are recorded in the register of members or in the
- register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. A person, who acquire share and become the shareholder of the Company after
- dispatch of the notice and hold shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2023 may obtain the login id and password by follow the same instructions as mentioned in the Notice of AGM for Remote e-Voting. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain

closed from Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (both

days inclusive) for the purpose of 34th Annual General Meeting. The procedure of e-voting is available in the Notice of AGM sent to the members. In case of any gueries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at https://www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at

evoting@nsdl.co.in or on Telephone No: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

The result of the remote e-voting / e-voting at AGM shall be declared on or before October 2, 2023. The result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed. For B.L. KASHYAP AND SONS LIMITED

> SD/-PUSHPAK KUMAR

> > **VP & COMPANY SECRETARY**

WE BUILD YOUR WORLD

Place: New Delhi Date: 03.09.2023

CRANEX LIMITED CIN: L74899DL1973PLC006503

Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010 E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

NOTICE OF THE 48TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty-Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Cranex Limited ('Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ("SEBI Circular") (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM notice, Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

Notice is also hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act. 2013 that the business as set out in the Notice of Annual General Meeting may be transacted by electronic voting and that the Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility In compliance with the relevant Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2022:

23, have been sent on 5th September, 2023 to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.cranexitd.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively, and on the website of NSDL AT www.evoting.nsdl.com

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by Members holding shares in a dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM and is also available on the website of the Company www.cranexltd.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, respectively, and on

Instructions for e-voting and e-voting during AGM

Commencement of e-voting From 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 27th September, 2023 End of e-voting Up-to 5.00 p.m. (IST) on Friday, 29th September, 2023 The Company has fixed Saturday, 23rd September, 2023 as the "CUT-OFF DATE" for determining the eligibility of the members to vote by electronic means or at the Annual General Meeting. In case, a person has become a member of the Company after dispatch of notice of Annual General meeting but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, 23rd September, he/she may write to NSDL on the e-mail id evoting@nsdl.co.in requesting for the User id and

the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. evoting.nsdl.com

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:-

existing User Id and Password for casting his/her vote through remote e-voting.

Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all communications including Annual Report, Notice etc. form the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-voting shall be shared on the member's registered email id.

Password. If the member is already registered with NSDL for e-voting, the member can use the

nentioned in the AGM Notice or call on toll free number .: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 For Cranex Limited Renu

Company Secretary

Membership No.: A29426

n case, members have any query regarding e-voting. Members may send a request to

evoting@nsdl.co.in for procuring user ID and password for e-Voting by providing documents as

BIHAR SPONGE IRON LIMITED CIN: L27106JH1982PLC001633 Registered Office: Umesh Nagar, Chandil,

Dist. Saraikela-Kharsawan, Jharkhand-832401.

Ph. +91 9955542302,

E-mail: companysecretary@bsil.org.in, **Website:** www.bsil.org.in INFORMATION REGARDING 41ST ANNUAL GENERAL MEETING Dear Member(s)

The 41st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Bihar Sponge Iron Limited will be held on Friday, the 29th September, 2023 at 04:00 P.M. (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEB Listing Regulations") read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (MCA Circulars) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent only through electronic mode to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant (DP). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.bsil.org.in and BSE Ltd. at www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Ltd. at www.evotingindia.com

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members has been provided in the Notice of the AGM which will be sent to you shortly.

Manner of registration/updation of E-mail addresses for receiving Annual Report and AGM Notice electronically:

 For shares held in Demat form: please register/ update email addresses & mobile no. with your respective Depository Participants (DPs) For shares held in physical form: Please provide Form ISR-1, Form ISR-2 and

Form No. SH-13 (Nomination Form) duly filled as per the instructions stated therein along with the supporting documents to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Complex, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062 or E-mail: beetalrta@gmail.com. The said forms are available on the website of the Company i.e., www.bsil.org.in and its RTA www.beetalfinancial.com.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in Notice of the AGM including instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting/e voting during the AGM. Please write to the Company for any assistance.

For Bihar Sponge Iron Limited

Place: New Delhi Date: 05.09.2023

given in the AGM notice.

Sd/-Vimal Prasad Gupta **Company Secretary & Compliance officer** FCS 6380

CIN: L74899DL1990PLC042302

Regd Office: B1/E-24 Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi- 110 044

DR FRESH ASSETS LIMITED

Tel.No. 91-11-41679238 E-mail: drfresh@drfreshassets.com; Website: www.drfreshassets.com INFORMATION REGARDING 33rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONDERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

(OAVM), REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be neld on Saturday, 30th September, 2023 at 05:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) ONLY, to transact the business set out in the Notice of the AGM. In accordance with General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing 4/

2023 dated 5th January 2023 read with Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022, Circular No. 21/2021 dated 14th December 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and allowing conducting of AGM through Video conferencing (VC) or other Audio-Visual Means (OVAM) without the physical Presence of the member of the meeting at a common venue. embers will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circular, the Notice of AGM and the Annual Report 2022-23 including the financial statements for the financial year 2022-23, along with Directors'

Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depositary Participant(s). The aforesaid documents will also be made available on the website of the Company i.e. www.drfreshassets.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.msei.in as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com. The members holding shares as on Saturday, 23th September, 2023 including those who will not receive electronic copy of the annual report due to non-availability of their email address

with the company can exercise their right to vote by following the instructions that will be

Manner of casting vote(s) through e-voting a. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting').

b. The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. c. The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

members through email e. The same login credential may also be used for attending the AGM through VC/OAVM. In case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository, please follow below instructions for obtaining the Annual Report and login-in details for joining the AGM/ exercising e-voting facility:

d. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to

a) Physical holding: please send scan copy of a signed request letter mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at drfresh@drfreshassets.com or to the email id of MAS Services Limited - Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company at mas_serv@yahoo.com. b) Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e-

c) Company is not declaring any dividend. Shareholders holding shares in the physical form are required to convert their holding

mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.

in DEMAT form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote evoting or through e-voting during the AGM. For and behalf of the Board Dr. Fresh Assets Ltd

> Vijay Prakash Pathak **Whole Time Director**

DIN: 07081958 √New Delhi

Sd/-



SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

Under The Provisions of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("The Act") and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("The Rules") The undersigned being the authorized officer of SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) (SMFG India Credit) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the

service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation

and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

DEMAND NOTICE

FASHION AIR FABRICS KHUDA BAKHSH KHAN, ALIYA KHAN Account No: 173020910700602 & 173020910737612

Name of the Borrower(s)

20/07/2023 Rs. 2201417/-As on 21.07.2023

Demand Notice Date & Amount

Description Of Immovable Property / Properties Mortgaged ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING NO.78, AREA MEASURING

71 SQ MTRS..IN BLOCK B-3.SITUATED IN YAMUNA VIHAR DELHI 110053

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that SMFG India Credit is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their labilities in full within the stipulated time, SMFG India Credit shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMFG India Credit is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), SMFG India Credit also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMFG India. Credit. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMFG India Credit under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or

any working day during normal office hours. Place: Delhi Date: 06.09.2023 SD/-, Authorised Officer. SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the

secured asset(s), without prior written consent of SMFG India Credit and non-compliance with the above

is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with

the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT.2002 Regd. Office: "Radhika", 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabd-380009

Branch Office: Tajpuriya Palace, Above Kajariatiles, Near Kukral Pull, beside Zarista Showroom, Shaktinagar, faizabad Road, Lucknow-226016 ou The Below Mentioned Borrower, Co-borrowers And Guarantors Have Availed Loan(s)/ Financial/ Facility(IES) From HDB Financial Services Limited By Mortgaging Your Immovable Properties securities) And Defaulted In Repayment Of The Same. Consequent To Your Defaults Your Loan Was

Classified As Non-performing Asset. Subsequetly, The Company Has Issued Demand Notice Under

Section 13(2) Of The Securitization And Reconstruction Of Financial Asset And Enforcement Of

Security Interest Act, 2002 (the Act), The Contents Of Which Are Being Published Herewith As Per

Section 13(2) Of The Act Read With Rule 3(1) Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 As And By Way Of Alternate Service Upon You. Details Of The Borrowers, Co-borrowers, Loan Account No., Loan Amount, Demand Notice Under Section 13(2) Date, Amount Claimed In The Notice, No. Date And Securities Are Given As Under: Name Of The Borrower & Co-borrowers: Sandeep Kumar Maheshwari - 8/8 Hig Flats Opposite Hotel Marina Sanjay Place Hari Parwat Agra Civil Lines Agra-282002 Uttar Pradesh -Shashank Maheshwari - 8/8 Hig Flats Opposite Hotel Marina Sanjay Place Hari Parwat Agra | Civil Lines Agra-282002 Uttar Pradesh - Vinita Maheshwari - 8/8 Hig Flats Opposite Hotel Marina Sanjay Place Hari Parwat Agra Civil Lines Agra-282002 Uttar Pradesh.; Loan Account No.13271289/6181072; Loan Amount: Rs.378405/- (Rupees Three Lakhs Seventy Eight Thousand Four Hundred Five Only) By Loan Account Number 13271289 and to the tune of Rs.2000000/- (Rupees Twenty Lakhs Only) by Loan Account Number 6181072; Demand Notice Date: 16.08.2023; Amount Claimed: Rs. 2019842 (Rupees Twenty Lakh Nineteen

02.08.2023; Details Of Security: All The Parts And Parcel Of Flat/House No. 8, Block-8 On 2Nd Floor Admeasuring 85.13 Sq. Mtrs., Hig Flat, Professor Colony, Hariparvat Ward, Tehsil & District Agra As According To Registered Sale Deed Executed By Sh. Kanhaiya Lal Sahani S/O Sh. Chetanram Sahani In Favour Of Sh. Sandeep Kumar Maheshwari S/O Sh. R.K Maheshwari Duly Registered In The Office Of Sub-Registrar, Agra Vide Bahi No. 1 Jild No. 5166 On Pages No. 61/82 At Serial No. 06 Dated 01/01/2005. Bounded As: East: Open To Sky, West: Common Stairs, Nikas And Thereafter Wall Of 8/9, North-Open To Sky, South-Open To Sky Name Of The Borrower & Co-borrowers: Harvana Palace Restaurant And Bar Private Limited - Fire Bridged Colony Aligarh HCL Aligarh -202001 Uttar Pradesh - And Also - A House No. 5/146 E Area 208.6 Sq. Meter Part Of Khasra No. 190 And 191, Situated At Mohalla Fire Brigade Colony, Goolar Aligarh-202001 - And Also - A House No. 5/128, Area 36.37 Sq. Metres Situated At Fire Brigade Colony. Paragna & Tehsil Koil Dist Aligarh Aligarh-202001 - Pawan Kumar - Sarai Labaria Aligarh-202001 Uttar Pradesh - Raj Kumar Agarwal Ratnesh Puram

Of Rs.945000/- (Rupees Nine Lakhs Forty Five Thousand Only) by Loan Account Number 15423319; Demand Notice Date: 16.08.2023; Amount Claimed: Rs. 4927335 (Rupees Forty Nine Lakh Twenty Seven Thousand Three Hundred & Thirty Five Only) as of 11.08.2023 And Future Contractual Interest Till Actual Realization Together With Incidental Expenses, Cost And Charges Etc., Npa Date: 02.08.2023; Details Of Security: All that piece and parcel of House No. 5/146E Area 249.6 Sq. Yards or 208.6 Sq Meter part of Khasra No. 190 and 191 situated at Mohalla Fire Brigade Colony Goolar Road Kasba Koil Pargana and Tehsil Koil Distt Aligarh 202001, Bounded as: - East: Property of Kamlesh Kumar, West: Plot & House Unknown Person, North: Goolar Road 50 ft, South: House of Premwati You The Borrower/ Co-borrowers And Gaurantors Are Therefore Called Upon To Make Payment Of

Redeem The Secured Assets.) Please Note That As Per Section 13(13) Of The Said Act, You Are Restrained From Transferring The Above-referred Securities By Way Of Sale, Lease Or Otherwise Without Our Consent And Any Non Compliance Of Section 13(13) Of The Act Is Punishable Under Section 29 Of The Said Act. FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. KUSH KAPOOR PHONE: 9838076150- VIKAS

The Above Mentioned Demanded Amount With Further Interest As Mentioned Hereinabove In Full

Within 60 Days Of This Notice Failing Which The Undersigned Shall Be Constrained To Take Action

Under The Act To Enforce The Above-mentioned Securities (Borrower's Attention Is Invited To

Provisions Of Sub-section (8) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available, To

ANAND - 9711010384 SD/- AUTHORISED OFFICER FOR HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED, Place: Uttar Pradesh Date: 06.09.2023

A

10:00 A.M.;

in the Notice of AGM.

Meeting of the Company.

Date: September 5, 2023

Place: New Delhi.

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED (Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)

Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area. Phase-I, New Delhi-110020 Website:- www.acilnet.com, E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com NOTICE OF THE 44th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

The Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 29th day of September, 2023 at 12.30 p.m. hosted at A-177, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM; Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2022-23 has been sent to all the members whose name appeared in the Register of Members as on Monday, 25th August,

2023 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are registered with

the Company/ Registrar & Transfer Agent (RTA) or with the Depository Participants in

accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022

and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022 and 28th December, 2022 respectively (hereinafter collectively referred as ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Company has completed the dispatch of Notice of 44th AGM and Annual Report through e-mail on 5th September, 2023; In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the shareholders

Friday, 22nd September, 2023, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited ("NSDL") from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting"). All the shareholders are informed that: The remote e-Voting shall commence on Tuesday, 26th September, 2023 at

holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date of i.e.

The remote e-Voting shall end on Thursday, 28th September, 2023 at 5:00 P.M.; The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time. Any person who acquires shares of the Company and becomes shareholder after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Friday, 22nd September, 2023 may obtain the Login-Id and Password after following the voting instruction provided

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date of i.e. Friday, 22nd September, 2023 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the AGM; Shareholders may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL

the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently; b) the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; The Notice of AGM is available on the Company's website www.acilnet.com and on the BSE & NSE website and also on the NSDL website at https://www.evoting.nsdl.com;

after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by

All grievances connected with facility for e-voting by electronics means may be discussed to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at Trade World A-wing Kamla Mill Compound. Lower Parel, Mumbai-400013. Or send an email to evoting@nsdl.co.in or call 022-24997000 and 022-48867000. Members may also write the under signed for any queries at above

mentioned Registered office address or email to cs.corpoffice@acilnet.com The Company has appointed Mr. Santosh Kumar Pradhan, Practicing Company Secretary (FCS No. 6973 and CP No. 7647) as the Scrutinizers to Scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manners.

on the Company's website and website of BSE and NSE. In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies. (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Declaration of Dividend and for the 44th Annual General

The results of remote e-voting at AGM shall be declared not later than 48 hours from the

conclusion of AGM. The declared results alongwith Scrutinizers report shall be placed

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

(Vipin Kumar Tiwari) Company Secretary

financialexp.epapr.in

Place: Delhi

Date: 04.09.2023

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

Thousand Eight Hundred & Forty Two Only) as of 11.08.2023 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.; NPA Date:

Marris Road Koll Aligarh-202001 Uttar Pradesh - Nimisha Agarwal - 45 Ratnesh Puram Marris Road Koll Aligarh-202001 Uttar Pradesh - Nimisha Agarwal - 45 Ratnesh Puram Marris Road Koil Aligarh-202001 Uttar Pradesh.; Loan Account No.6983379 / 15423319; Loan Amount: Rs.5000000/- (Rupees Fifty Lakhs Only) By Loan Account Number 6983379 And To The Tune

MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED CIN - L52110DL1985PLC020240 Regd Office: J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 Website: www.meenakshisteel.in Email Id: meenakshisteelindustries@gmail.com

be held at the Registered Office of the Company at J-189, Basement, J Block, Saket, New Delhi 110 017 on Saturday, 30th September, 2023 at 3.00 pm The Annual Report for the financial year 2022-23 including the Notice convening this Annual General Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier and electronically to those members who have registered their email Id with the Company. The Book Closure date is Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive). The copy of the 38th Annual Return is available on Company's website www.meenakshisteel.in The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at this Annual General Meeting by Electronic Mean (e-voting). The Members may cast

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of the Company will

The Remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 27th, September, 2023 from 9.00 am and end on Saturday, 29th September, 2023 at 5.00 pm. The cut-off date for Remote E-voting shall be 23rd September, 2023. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and A person whose name appear on Register of Members / Beneficial Owners as on 5th September, 2023

only shall be allowed to avail the facility of remote e-voting / Voting at the meeting.

Sudha Jajodia Director (DIN - 00376571)

अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

श्री बंशीधर यादव, निवासी G-7/62, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर.16, रोहिणी, दिल्ली। ने FIR No. 16/2020 U/s 411/482/34 IPC & 25/35/54/59 Arms Act., के अंतर्गत थानाः KNK मार्ग, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त राहुल उर्फ मोटा मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त राहुल उर्फ मोटा फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR No. 16/2020 U/s 411/482/34 IPC & 25/35/54/59 Arms Act., थानाः KNK मार्ग, दिल्ली के उक्त अभियुक्त राहुल उर्फ मोटा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 08.11.2023 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

DP/9904/RD/2023

Place: Mumbai

Date: September 6, 2023

श्री हिमांशु सहलोथ, MM-03, कमरा नंबर 213, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

कोठारी फर्मेन्टेशन एंड बायोकेम लिमिटेड CIN: L72411DL1990PLC042502 पंजी. कार्यालयः 16, कम्युनिटी सेन्टर, प्रथम तल, साकेत,

नई दिल्ली-110 017 | **टेली**.: 011-26850004, ईमेलः info@kothariyeast.in, वेबसाईटः www.kothariyeast.in

सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। यह सुचना कम्पनी की वेबसाईट www.kothariyeast.in तथा एनएसडीएल की वेबसाईट पर उपलब्ध है। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः

1. एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

2. एजीएम सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की पूर्णता की तिथिः 4 सितम्बर, 2023 3. ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समय: 25 सितम्बर, 2023 (सोमवार) को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू

होगी तथा 27 सितम्बर, 2023 (बधवार) को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। 4. कट-ऑफ तिथिः 21 सितम्बर, 2023

सकते हैं। यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में भी दी गई है। सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) 27 सितम्बर, 2023 के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमित नहीं दी जाएगी: ख) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर दिये हों वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे तथा घ) केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ आमसभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

किसी भी प्रकार की पुछताछ के लिये सदस्य टोल फ्री नं. 022-48867000 तथा 022-24997000 पर सम्पर्क करें अथवा info@kothariyeast.in पर कम्पनी को लिखें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ईमेल pallavid@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृत्ते, कोठारी फर्मेन्टेशन एंड बायोकेम लि.

स्थान: नई दिल्ली सिल्की गुप्ता तिथि: 5.9.2023 कम्पनी सचिव

मिश्का एक्जिम लिमिटेड CIN: L51909DL2014PLC270810

पंजी. कार्या.: एफ-14, प्रथम तल, क्रॉस रिवर मॉल, सीबीडी ग्राउण्ड. शाहदरा. नई दिल्ली-110032 ईमेलः mishkaexim@gmail.com

9वी वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की तिथि की सूचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 9वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) सुचना में वर्णित व्यवसाये को निष्पादित करने के लिये ले चेफ. 3रा तल, क्रॉस रिवर मॉल, सीबीडी ग्राउण्ड, शाहदरा, दिल्ली-110032

भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅन्ट्स के पास पंजीकृत हैं बशर्ते सदस्यों को भेजी गई है जिन्होने अपने ईमेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास दर्ज नहीं करायें हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कम्पनी वेबसाईट अर्थात् mishkaexim.com पर स्थापित की जा रही है। सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के क्लॉज 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें 24 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद

यह कम्पनी 9वीं एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) द्वार मतदान करने की सविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही हैं। उक्त नियमों तथा अधिनियम के प्रावधाने के अनुपालन में विवरण यहाँ नीचे दिये गये है:

क) सूचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथि मंगलवार, 5 सितम्बर, 2023 है।

ख) मतदान 27 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पर्वा. में शरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि (अभिलिखित तिथि) अर्थात् 22 सितम्बर् 2023 को भौतिक पद्धति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

यदि ई-वोटिंग से संबंधित किसी सदस्य का कोई प्रश्न अथवा समस्या हो तो कृपय helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें। किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिये पत्र द्वार अथवा **ईमेल:mishkaexim@gmail.com** द्वारा सचिवालयी विभाग में कृपया सम्पर्क करें।

मिश्का एक्जिम लिमिटेड के लिये

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED (An exterprise of THE HINDUSTHAN GROUP)

पंजीकत कार्यालयः कंचनजंगा (7वां तल) 18 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली–110001

ई-मेल : investors@hindustan.co.in, वेबसाइट : www.hindusthanurban.com वीडियो कान्फैंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुएल माध्यमों (ओएवीएम)

दिसम्बर, 2022 तथा लागु होने वाले सभी सर्क्युलर्स (''एमसीए सर्क्युलर्स'') तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी सेबी सर्क्युलर सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2)पी/सीआईआर/2023/4 तिथि 5 जनवरी, 2023 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य सभी लागू होने वाले कानूनों तथा सर्क्युलर के अनुपालन में हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यों की 63वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा. में वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑिडयो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी

उपरोक्त सर्क्यलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम सभा की सचना इलेक्टॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। सूचना का ईमैलिंग 5 सितम्बर 2023 को परा कर लिया गया है। उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.hindusthanurban.com, स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

("एनएसडीएल") की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कम्पनी ने सदस्यों के लिये एजीएम की सचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सविधा (एजीएम से पर्व) तथा ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम) के दौरान) के माध्यम से अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि डिमैट पद्धत्ति में धारित शेयरों के लिये संबंधित डीपी तथा भौतिक पद्धत्ति में धारित शेयरों के मामले में स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि., कम्पनी के आरटीए का पास compliances@skylinerta.com पर अथवा info@skylinerta.com पर उसे पंजीकृत/अद्यतन करा लें। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग द्वारा मतदान के लिये सदस्यों की पात्रता सनिश्चित करने हेत कट-ऑफ तिथि शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। डिमैटेरियलायज्ड पद्धित या भौतिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए के पास दर्ज कराये हैं तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल आईडी दर्ज नहीं कराये हैं. के लिये भागीदारी तथा मतदान की प्रक्रिया के लिये निर्देश भी अन्य संबंधित विवरणों सहित एजीएम के आमंत्रण की सचना में दी गई है।

तिथि: 5.9.2023 स्थानः भोपाल अध्यक्ष-वित्त एवं सचिव



Regd. office: Office No 4 FF, CSC, Pocket E Market, Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

E mail: oakeymohan@gmail.com Websie: www.oakeymohan.in Phone: 0120 -2657298

NOTICE OF THE 61st ANNUAL GENERAL MEETING, **E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the members of John Oakey and Mohan Limited (the 'Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 3:00 p.m. IST through Video Conferencing(VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 61st AGM, in due compliance of the General Circular numbers 4/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022, and 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at, https://www.oakeymohan.in/ investors.html and on the website of stock exchange at https://www.msei.in/. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on September06, 2023.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standard-2 and Regulations 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ('SEBI Listing Regulations') the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 61st Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2023), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 27, 2023 (10:00 a.m. IST) and end on Friday the September 29, 2023 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. IST on September 29, 2023. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer the Notice calling 61st AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's RTA by writing them at Investor@beetalfinancial.com to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of the 61st AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact the helpline number given in the Notice calling 61st AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) 2015, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive).

Regd. Off:-Office No 4, FF, CSC Pocket E Market, Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

For John Oakey and Mohan Ltd

BY Order of the Board of Directors

(Sanjeev Bawa) **Managing Director** DIN-03633427



Date: -12-08-2023

डयरोपैक लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1986PLC025835 (फ्लैक्सिबल लैमिनेटस पाउच तथा होलोग्राफिक उत्पादों के निर्माता) प्रशासनिक कार्यालय : बी-4/160, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029 (भारत) दूरभाष : 011-26181611, 41359339

ई-मेल : info@duropackindia.com, वेबसाइट : www.duropackindia.com एतद्वारा सचना दी जाती है कि **डयरोपैक लिमिटेड** (''**कंपनी**'') के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक ''एजीएम'') कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागु प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों ''अधिनियम'') और परिपत्र सं. 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 20 दिनांक 5 मई, 2020 और परिपत्र सं. 17 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तत्पश्चात सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 08 दिसम्बर, 2021, सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05 मई. 2022 तथा सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (सिके पश्चात सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') (सचीबद्धता दायत्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम. 2015 तथा सेबी परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') और सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम आयोजित करने की सूचना दिनांक 1 सितम्बर, 2023 में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सबह १०:०० बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो-विजअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी क्योंकि उपरोक्त परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र दिनांक 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 तथा 12 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 द्वारा किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमित प्रदान की गयी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सुचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेज, कंपनी के उन सभी सदस्यों के पास भेज दिये गये हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.duropackindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

चंकि यह एजीएम संबंधित परिपत्रों के अनसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए इस एजीएम के लिए सदस्यों को उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं

बई-मेल पते पंजीकत√अपडेट कराने की रीति

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) के विवरण के साथ कंपनी को cs@duropackindia.com पर या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (''आरटीए'') मैस्प्री अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड को rta@abhipra.com पर लिखकर इसे पंजीकृत/अपडेट करें।

यदि शेयर डीमैट मोड में हैं. तो कपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), शेयरधारक का नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) cs@duropackindia.com पर उपलब्ध करायें।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सुचबद्धता विनियम के विनियम 44 तथा प्रासंगिक परिपत्रों के के अनुसार, सदस्य को एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्स लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित इलेक्ट्रॉनिक रूप से ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दिन ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की गयी है और ऐसे ई-वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का लेन-देन किया जा सकता है।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः कंपनी ने किसी भी व्यक्ति की ई-वोटिंग हेत सदस्यों की पात्रता सनिश्चित करने के लिए 23 सितंबर, 2023 को ''कट ऑफ'' तिथि के रूप में निर्धारित किया है, कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तक शेयर धारण करता है वह फोलियो नंबर/डीपी

आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो मतदान के लिए मौजदा यजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितंबर 2023 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार,

29 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) (दोनों दिन शामिल) पर समाप्त होगी और इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट ऑफ डेट') को कंपनी की चुकता इक्विटी पंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य है, एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए मतदान करने का पात्र है।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है. वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी ने ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री दीपक गप्ता (सीपी नंबर 4629), डीआर एसोसिएटस, कंपनी सचिव के साझेदार को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है। कोई भी व्यक्ति. जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और सचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 तक शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सचना में प्रावधानित तरीके से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

5. वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निदेशों के लिए, सदस्य कृपया एजीएम की सचना देखें। डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए की रीति कंपनी की वेबसाइट www.duropackindia.com, स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) यानी www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध एजीएम की सचना में प्रदान किया गयी है। । ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ) for members का सन्दर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी सिंह, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. टेड वर्ल्ड. 'ए' विंग. चौथी मंजिल. कमला मिल्स कंपाउंड. सेनापित बापट मार्ग. लोअर परेल. मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर पर:- +91 22 24994545, +91 22 24994890 पर संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

> निदेशक मण्डल के आदेशानसार कृते ड्यूरोपैक लिमिटेड

विवेक जैन प्रबन्ध निदेशक डीआईएन : 01753065

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

मै. केम कलर (इंडिया) लिमिटेड (CIN: U24119DL1991PLC221352) जिसका पंजीकृत कार्यालय 217, गली नं. 2, गुरुराम दास नगर, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092 में है, के मामले में

रतदृद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 31 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है। कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली,बी-2 विंग, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली- 110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें। 217, गली नं. 2, गुरुराम दास नगर, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से तिथि: 06.09.2023

स्थानः दिल्ली रमेश कुमार अगरवाल (निदेशक DIN: 00293312 पंजीकृत कार्यालय का सम्पूर्ण पताः 217, गली नं.2,

गुरुराम दास नगर, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092

आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड (पूर्व में शान्तनु इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड विदित)

सीआईएन: L45100DL1973PLC006795 पंजीकृत कार्यालयः डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत न्यू दिल्ली 110017 कॉर्पोरेट कार्यालयः डीएससी-326, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत न्यू दिल्ली 110017 ईमेल आईडी: cs@greatvalueindia.com; वेबसाइट: www.ayushman.net

आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड की 50वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड के शेयरधारकों की 50वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यापार के लेन-देन के लिए शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डीएससी-319 डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई

(फोन नंबर:-011-41349612-14)

दिल्ली-110017, में आयोजित की जाएगी। एजीएम नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची सदस्यों को अनुमत माध्यम से भेज दी गई है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.ayushman.net और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.msei.in पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य यह भी नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 50वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना केवल उन सदस्यों के पास जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी। कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने

वाले सदस्य एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तदनुसार, शेयरधारक बैठक में मतदान

करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम मतदान की कट-ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2023 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 [दोनों दिन शामिल] तक बंद रहेंगे। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 (09:00 पूर्वाह्न भा.मा.स.) से शुरू होगी

और गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 (05:00 अपराह्न भा.मा.स.) को समाप्त होगी। ई-वोटिंग सुविधा उक्त ई-वोटिंग अवधि के दौरान www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी

का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com तथा cs@greatvalueindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक

में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे और बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सदस्य भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप निम्नलिखित व्यक्ति से संपर्क

नाम : श्री राकेश दलवी (प्रबंधक)

दिनांक: 5 सितंबर. 2023

स्थानः नई दिल्ली

निवासीः ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मटेरियल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई -400013। ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com

फोन नंबरः 1800225533

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम के नोटिस में रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट उचित समय पर कंपनी की वेबसाइट यानी www.ayushman.net, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी www.msei.in और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त सुचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और

समय-समय पर जारी एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते तथा मोबाईल नम्बर पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार फार्म आईएसआर 1 फार्म को परा कर स्काईलाइन (आरटीए) के पास उसे पंजीकृत करा लें। ये फार्म लिंक https://www.ayushman.net.in/

images/phnotice/Form-ISR-1.pdf पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकती है। कपया समय पर संदेश प्राप्त करने के लिये अपने अत्यधिक अपडैटेड ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत करा लें।

आयुष्मान इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिये हस्ता./ विनय आनंद कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

डा. फ्रेश असेटस लिमिटेड

सीआईएन : एल७४८९९डीएल १९९०पीएलसी०४२३०२ **पंजी**. **कार्यालय** : बी−1 / ई−24, मोहन को−ऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 ਟੇਂলੀ. ਜਂ. 91-11-41679238,

ईमेल: drfresh@drfreshassets.com; वेबसाईट: www.drfreshassets.com वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित

33वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई वोटिंग के बारे में सचना . तद्दवारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को अप. 5.00 बजे. वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजअल साधनों (ओएवीएम) के

माध्यम से आयोजित की जायेगी, जिसमें सभा के आयोजन की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कलर नंबर 4/2023 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 के साथ पठित सर्कलर नंबर 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022, सर्कुलर नंबर 21/2021 दिनांकित 14 दिसंबर, 2021, सर्कुलर नंबर

19/2021 दिनांकित 8 दिसंबर, 2021, सर्कूलर नंबर 2/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा सर्कूलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के अनुपालन में और एजीएम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किसी एक स्थान पर बैठक में सदस्य की भौतिक उपस्थित के बिना करने के अनुपालन में। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी। संबद्ध सकुलर के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022–23, जिसमें वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय

विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने हेत अपेक्षित दस्तावेजों सहित ऐसे सदस्यों को केवल ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटस) के पास दर्ज हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.drfreshassets.com पर स्टॉक एक्सचेंजेज, जहां कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, की वेबसाइटस नामत : www.msei.in तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट नामतः www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं। शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को शेयरों के धारक सदस्य, उन सदस्यों सहित जिनको उनका ई–मेल पता कम्पनी

के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं होती है, एजीएम की सूचना में दिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण कर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि क) सदस्यों को एजीएम की सचना में सचीबद्ध व्यवसाय पर उनका वोट इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम

("ई—वोटिंग") के माध्यम से डालने का अवसर प्राप्त होगा। ख) भौतिक रूप, अभौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों द्वारा और उन सदस्यों, जिनका ई–मेल पता पंजीकृत नहीं है, के लिए रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई–वोटिंग") की विधि का वर्णन एजीएम की सुचना में किया गया ग) ई–वोटिंग हेत् सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिनके

द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में वोट डाल सकेंगे। घ) ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स सदस्यों को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराए 🕃) इन्हीं लॉगइन क्रेडेन्शियल्स का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतू किया

जाएगा। यदि आपका ई–मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीबद्ध नहीं है. कपया एजीएम से जुड़ने / ई—वोटिंग सुविधा का प्रयोग करने के लिए लॉगइन विवरण और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए निम्नवर्णित अनुदेशों का अनुसरण करें 1) भौतिक धारण : कृपया हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, जिसमें आपके फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम दिया गया हो. शेयरप्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक). पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति). आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) सहित ई-मेल द्वारा कम्पनी के ई-मेल पता कततिमीं/कतिमींमजेण्बवउ

पर अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट – एमएएस सर्विसेज लिमिटेड की ई–मेल आईडी रेंऋमतः / लीववण्बवस पर भेजें। 2) अभौतिक धारण : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें और अपने डीमैट खाते में

अपना ई–मेल पता अपने डीपी द्वारा बताए अनुसार पंजीकृत करें। 3) कम्पनी कोई लाभांश घोषित नहीं कर रही है।

4) जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उनको अपने शेयर अभौतिक रूप में परिवर्तित कराने होंगे क्योंकि सेबी द्वारा भौतिक रूप में शेयरों का हस्तांतरण निषिद्ध कर दिया गया है। सदस्यों से अनरोध है कि एजीएम की सचना मे दिए गए नोटस और विशेषकर एजीएम से जड़ने, रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग द्वारा वोट डालने की विधि संबंधी अनदेश ध्यानपर्वक पढ लें।

कृते एवं हिते बोर्ड डा. फ्रेश असेट्स लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली विजय प्रकाश पाठक तिथि : 03-09-2023 पूर्ण कालिक निदेशक

टिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : ए-23, मंदाकिनी एन्कलेव, अलकनन्दा, जीके-II, नई दिल्ली-110019 . कॉर्पोरेट कार्यालयः ट्रिनिटी टॉवर, बी—2, सेक्टर—7, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301

संपर्क-0120-6923900-902 वेबसाइट : www.trinitygroup.ind.in ई—मेल: trinityleague@trinitygroup.ind.in

35वीं वार्षिक आम बैठक(एजीएम) की सूचना तद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन–देन हेतु ट्रिनिटी लीग इंडिया

लिमिटेड की पैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक (35वीं एजीएम) केवल ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 11

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपन्न दिनांक 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 एवं सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020,परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई, 2022 के अनुपालन में एजीएम केवल विसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सचना में प्रावधानित हैं।

जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपॉजिटरी) के साथ पंजीकृत हैं और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.trinitygroup.ind.in तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

तथा ई-वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है, वे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई—मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन तथा क्लाइंट मास्टर की स्वप्रमाणित प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित निवेदन की स्कैन्ड प्रति कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड के पास investor@beetalfinancial.com पर भेज दें तािक वे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग

5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटिंग हेतु ई—वोटिंग मॉड्यल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 28 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर लिया है वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अपना मतदान करने के लिए investor@beetalfinancial.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई–वोटिंग करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना

अपने डिपॉजिटरी भागीदारों को सूचित करें जिनके द्वारा उनके डीमैट खाते अनुरक्षित किये जा रहे हैं। कम्पनी अथवा इसका आरटीए बैंक विवरण या बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतू इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से सीधे किसी निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ऐसे परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी भागीदारों के पास ही परामर्शित होने हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों कृपया अपने बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन की सूचना बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुखदास मन्दिर, नई दिल्ली-110062 के पास भेजें।

> पीयूष कुमार श्रीवास्तव कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 05 सितम्बर, 2023 **DU Digital**

स्थान : नई दिल्ली

Global

डीयुडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड पूर्व का डीयू डिजिटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआईएनः U74110DL2007PLC171939

संपर्क नंबरः ०११-४०४५०५३३, वेबसाइट : Dudigitalglobal.com, मेलः cs@dudigItalglobal.com वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी तथा बुक क्लोजर

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों, एमसीए परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022, सं. 14/2020 दिनांक 08.04.2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13.4.2020, संख्या 20/2020 दिनांक 5.5.2020 और संख्या 20/2021 दिनांक 08/12/2021, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/7 दिनांक 12.5.2020, और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर /पी/2021/11 दिनांक 15/01/2021 के अनुपालन र कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शक्रवार. 29 सितम्बर. 2023 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

returns/ पर, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://vote.bigshareonline.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर, जहां कंपनी के शेयर सदस्य. जिनके पास भौतिक/इलेक्टॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागिये के साथ पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे सदस्य (सदस्यों) द्वारा अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी और निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की

कट-ऑफ तारीख यानी 22 सितम्बर, 2023 तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, सीएसडीएल वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट

रिमोट ई-वोटिंग 26 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी।

रिमोट ई-वोटिंग 28 सितम्बर, 2023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। . इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 22 सितम्बर, 2023 है और जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए;

सदस्य, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और एजीएम की सुचना भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते है और कट ऑफ तिथि तक शेयर धारण करते हैं, वे बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ivote@bigshareonline.com पर या कंपनी को cs@dudioitalolobal.com पर अनुरोध भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले से ही सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वह अपने मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित मुद्दों और समस्याओं सहित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा remote e-voting Manual देखें य https://vote.bigshareonline.com पर ई-मेल लिखें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगा या बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से 022–6263 8200 या टोल फ्री नं. 1800225533

मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (पूर्व में एमसी-स्टिच लिमिटेड विदित) CIN: L65999DL1985PLC022321

पंजी. कार्यालयरू 1, कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 टेली. नं. 011-49057869, ईमेल: mcstitchlimited@gmail.com, वेबसाईट: www.maxpluslogisticslimited.com विडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)

तदवारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय करने के लिए लिए केवल विडियों कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या २/२०२२ दिनांक ५ मई. २०२२. परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19 / 2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और परिपत्र संख्या 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021 के अनसार एक सामान्य स्थान पर बैटक में सदस्य की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओवीएएम) के माध्यम एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी जायेगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा ही एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की

संबंधित सर्क्युलर के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा निदेशकों के रिपोर्ट, ऑडिटरों के रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किये जाने के लिये वांछित अन्य दस्तावेजों के साथ वित्त वर्ष 2022–23 के वार्षिक विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 केवल ईमेल द्वारा कम्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.maxpluslogisticslimited.com तथा स्टॉक एक्सचौंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईट अर्थात् www.msei.in के साथ ही नेशनल साथ सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

किये होने वाले सदस्यों सहित 23 सितम्बर, 2023 को शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम की सुचना में दी गई निर्देशों का पालन कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

ख. डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति, भौतिक पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के द्वारा रिमोट वोटिंग (''रिमोट ई–वोटिंग'') की प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी जायेगी।

जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे। घ. ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने का लागिन क्रेडिन्शियल्स ईमेल द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा। **ङ.** वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने के लिये उसी लागिन केडेन्शियल्स का उपयोग किया जायेगा।

यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एजीएम में शामिल होने/ई—वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिये लॉगिन विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये नीचे दिये गये निर्देशों को पालन करें:

क) भौतिक धारिता: कपया अपने फोलियों नं.. शेयरधारक का नाम. शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की स्कैन प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वत: सत्यापित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वत: सत्यापित स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति cs.mcstitch@gmail.com पर कम्पनी के ईमेल पते पर अथवा rdua@rcmcdelhi.com पर आरसीएमसी शेयर रजिस्टी प्रा.लि.–कम्पनी के रजिट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) के पास भेजें।

ख) डिमैट धारित: कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया के अनुसार अपने डिमैट खाते में अपना पता पंजीकृत कराएें। ग) कम्पनी किसी लाभांश की घोषणा नहीं कर रही है।

घ) भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को डिमैट पद्धत्ति में अपनी धारिता को रुपांतरित करना होगा क्योंकि भौतिक पद्धत्ति में शेयरों का अंतरण सेबी द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है। र्रमदस्यों से आग्रह है कि. एजीएम की सचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में

> बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड संजीव चन्द्रा

तिथि: 04.09.2023

स्थान: नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 सहित एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं और परिणामस्वरूप उनके पास एजीएम की सूचना

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 26 सितम्बर, 2023 को 10.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी और 28 सितम्बर, 2023 को

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेत् सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 है। कोई व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत पताः सी-4, एसडीए कम्युनिटी सेंटर, हौज खास, नई दिल्ली, दिल्ली-110016

(वीसी) एवं अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। सेबी के परिपत्रों के साथ पठित उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 05 सितम्बर, 2023 को उन सभी सदस्यों के पास भेजी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट केसाथ 01 सितम्बर, 2023 तक पंजीकृत हैं। एजीएम की सचना कंपनी की वेबसाइट www.dudigitalglobal.com/annual-

स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी अर्थात आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी cs@dudigitalglobal.com पर ईमेल द्वारा भेजकर अपने ई-मेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत करें ताकि वे एजीएम नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ

डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः एजीएम के नोटिस में उस विधि के बारे में निर्देश शामिल हैं जिससे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमी

(ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। . एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों का लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम रं

सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 23 सितम्बर, 2023 से 29 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद

डीयुडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड के लिए

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 5 सितम्बर, 2023 स्थान : नई दिल्ली

द्वारा आयोजित की जाने वाली 38वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग के विषय में सूचना

कम्पनी के पास उनके ईमेल पते की अनुपलब्धता के कारण वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं

ई—वोटिंग द्वारा मतदान का तरीकारू क. सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('ई–वोटिंग') द्वारा एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर अपना मतदान करने का अवसर होगा।

ग. एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य

शामिल होने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान की प्रक्रिया का सावधानी पर्वक अध्ययन कर लें।

> निदेशक एवं सीईओ डीआईएन :00095561

their vote using an electronic voting system from the place other than Venue of the Meeting (Remote

By order of the Board of Directors For MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LIMITED

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की

धारा 82 Cr. P. C. देखिए मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राहुल उर्फ मोटा पुत्र

एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) गुरुवार, 28

5. यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तो वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर

में शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 11.00 बजे पर्वा. में आयोजित की जाएगी। एजीएम की सुचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची प्रॉक्सी प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को

तिथि: 05.09.2023 रजनीश गुप्त स्थानः दिल्ली

सीआईएन : एल31300डीएल1959पीएलसी003141, दूरभाष सं. +091-11-23310001-05 द्वारा आयोजित की जाने वाली 63वीं वार्षिक आम सभा की सचना एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्यलर नं. 10/2022 तिथि 28

जिसमें सभा की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

हिन्दुस्थान अर्बन इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड के लिए एम.एल. बिरमीवाला

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 5 सितम्बर, 2023

से जड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

www.readwhere.com